



सत्यमेव जयते

आयुक्त का कार्यालय
Office of the Commissioner
केंद्रीय जीएसटी, अपील अहमदाबाद आयुक्तालय
Central GST, Appeals Ahmedabad Commissionerate
जीएसटी भवन, राजस्व मार्ग, अम्बावाड़ी, अहमदाबाद-380015
GST Bhavan, Ambawadi, Ahmedabad-380015
Phone: 079-26305065 - Fax: 079-26305136
E-Mail : commrappl1-cexamd@nic.in
Website : www.cgstappealahmedabad.gov.in



आज़ादी का
अमृत महोत्सव

By SPEED POST

DIN:- 20240564SW000081896E

(क)	फाइल संख्या / File No.	GAPPL/COM/STP/1805/2024-APPEAL/6012-16
(ख)	अपील आदेश संख्या और दिनांक / Order-In-Appeal No. and Date	AHM-EXCUS-003-APP-035/2024-25 and 30.05.2024
(ग)	पारित किया गया / Passed By	श्री ज्ञानचंद जैन, आयुक्त (अपील्स) Shri Gyan Chand Jain, Commissioner (Appeals)
(घ)	जारी करने की दिनांक / Date of issue	31.05.2024
(ङ)	Arising out of Order-In-Original No. 208/AC/DEM/MEH/ST/Rajendrakumar P. Prajapati /2022-23 dated 31.03.2023 passed by the Assistant Commissioner, CGST, Division - Mehsana, Commissionerate - Gandhinagar	
(च)	अपीलकर्ता का नाम और पता / Name and Address of the Appellant	M/s. Rajendrakumar Prabhudas Prajapati, 21, Jay Parshwanath Society, Nagalpur, Collage, Nagalpur Highway, Mehsana - 384001

कोई व्यक्ति इस अपील-आदेश से असंतोष अनुभव करता है तो वह इस आदेश के प्रति यथास्थिति नीचे बताए गए सक्षम अधिकारी को अपील अथवा पुनरीक्षण आवेदन प्रस्तुत कर सकता है, जैसा कि ऐसे आदेश के विरुद्ध हो सकता है।

Any person aggrieved by this Order-in-Appeal may file an appeal or revision application, as the one may be against such order, to the appropriate authority in the following way.

भारत सरकार का पुनरीक्षण आवेदन:-


Revision application to Government of India:

(1) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क अधिनियम, 1994 की धारा अतत नीचे बताए गए मामलों के बारे में पूर्वोक्त धारा को उप-धारा के प्रथम परन्तुक के अंतर्गत पुनरीक्षण आवेदन अधीन सचिव, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, चौथी मंजिल, जीवन दीप भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली: 110001 को की जानी चाहिए :-

A revision application lies to the Under Secretary, to the Govt. of India, Revision Application Unit Ministry of Finance, Department of Revenue, 4th Floor, Jeevan Deep Building, Parliament Street, New Delhi - 110 001 under Section 35EE of the CEA 1944 in respect of the following case, governed by first proviso to sub-section (1) of Section-35 ibid :-

(क) यदि माल की हानि के मामले में जब ऐसी हानिकार खाने से किसी भण्डागार या अन्य कारखाने में या किसी भण्डागार से दूसरे भण्डागार में माल ले जाते हुए मार्ग में, या किसी भण्डागार या भण्डार में चाहे वह किसी कारखाने में या किसी भण्डागार में हो माल की प्रकिया के दौरान हुई हो।

In case of any loss of goods where the loss occur in transit from a factory to a warehouse or to another factory or from one warehouse to another during the course of processing of the goods in a warehouse or in storage whether in a factory or in a warehouse.



(ख) भारत के बाहर किसी राष्ट्र या प्रदेश में निर्यातित माल पर या माल के विनिर्माण में उपयोग शुल्क कच्चे माल पर उत्पादन शुल्क के रिबेट के मामलों में जो भारत के बाहर किसी राष्ट्र या प्रदेश में निर्यातित है।

In case of rebate of duty of excise on goods exported to any country or territory outside India of on excisable material used in the manufacture of the goods which are exported to any country or territory outside India.

(ग) यदि शुल्क का भुगतान किए बिना भारत के बाहर (नेपाल या भूटान को) निर्यात किया गया माल हो।

In case of goods exported outside India export to Nepal or Bhutan, without payment of duty.

(घ) अंतिम उत्पादन की उत्पादन शुल्क के भुगतान के लिए जो ड्यूटी क्रेडिट मान्य की गई है और ऐसे आदेश जो इस धारा एवं नियम के मुताबिक आयुक्त, अपील के द्वारा पारित वो समय पर या बाद में वित्त अधिनियम (नं 2) 1998 धारा 109 द्वारा नियुक्त किए गए हो।

Credit of any duty allowed to be utilized towards payment of excise duty on final products under the provisions of this Act or the Rules made there under and such order is passed by the Commissioner (Appeals) on or after, the date appointed under Sec.109 of the Finance (No.2) Act, 1998.

(2) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क (अपील) नियमावली, 2001 के नियम 9 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट प्रपत्र संख्या इए-8 में दो प्रतियों में, प्रेषित आदेश के प्रति आदेश प्रेषित दिनांक से तीन मास के भीतरमूल-आदेश एवं अपील आदेश की दो-दो प्रतियों के साथ उचित आवेदन किया जाना चाहिए। उसके साथ खाता इ का मुख्य शीर्ष के अंतर्गत धारा 35-इ में निर्धारित फी के भुगतान के सबूत के साथ टीआर-6 चालान की प्रति भी होनी चाहिए।

The above application shall be made in duplicate in Form No. EA-8 as specified under Rule, 9 of Central Excise (Appeals) Rules, 2001 within 3 months from the date on which the order sought to be appealed against is communicated and shall be accompanied by two copies each of the OIO and Order-In-Appeal. It should also be accompanied by a copy of TR-6 Challan evidencing payment of prescribed fee as prescribed under Section 35-EE of CEA, 1944, under Major Head of Account.

(3) रिविजन आवेदन के साथ जहाँ संलग्न रकम एक लाख रुपये या उससे कम होतो रूपये 200/- फीस भुगतान की जाए और जहाँ संलग्नरकम एक लाख से ज्यादा हो तो 1000/- की फीस भुगतान की जाए।

The revision application shall be accompanied by a fee of Rs.200/- where the amount involved is Rupees One Lac or less and Rs.1,000/- where the amount involved is more than Rupees One Lac.

सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क एवं सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण के प्रति अपील:-
Appeal to Custom, Excise, & Service Tax Appellate Tribunal.


(1) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 35-बी/35-इ के अंतर्गत:-

Under Section 35B/ 35E of CEA, 1944 an appeal lies to :-

(2) उक्तलिखित परिच्छेद में बताए अनुसार के अलावा की अपील, अपीलो के मामले में सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण (सिस्टेट) की पश्चिम क्षेत्रीय पीठिका, अहमदाबाद में 2nd माला, बहुमाली भवन, असरवा, गिरधरनागर, अहमदाबाद-380004।

To the west regional bench of Customs, Excise & Service Tax Appellate Tribunal (CESTAT) at 2nd floor, Bahumali Bhawan, Asarwa, Girdhar Nagar, Ahmedabad: 380004. In case of appeals other than as mentioned above para.

The appeal to the Appellate Tribunal shall be filed in quadruplicate in form EA-3 as prescribed under Rule 6 of Central Excise(Appeal) Rules, 2001 and shall be accompanied against (one which at least should be accompanied by a fee of Rs.1,000/-, Rs.5,000/- and Rs.10,000/- where amount of duty / penalty / demand / refund is upto 5 Lac, 5 Lac to 50 Lac and above 50 Lac respectively in the form of crossed bank draft in favour of Asstt. Registrar of a branch of any nominated public



sector bank of the place where the bench of any nominate public sector bank of the place where the bench of the Tribunal is situated.

(3) यदि इस आदेश में कई मूल आदेशों का समावेश होता है तो प्रत्येक मूल आदेश के लिए फीस का भुगतान उपर्युक्त ढंग से किया जाना चाहिए इस तथ्य के होते हुए भी कि लिखा पढी कार्य से बचने के लिए यथास्थिति अपीलीय न्यायाधिकरण को एक अपील या केन्द्रीय सरकार को एक आवेदन किया जाता है।

In case of the order covers a number of order-in-Original, fee for each O.I.O. should be paid in the aforesaid manner notwithstanding the fact that the one appeal to the Appellant Tribunal or the one application to the Central Govt. As the case may be, is filled to avoid scriptoria work if excising Rs. 1 lacs fee of Rs.100/- for each.

(4) न्यायालय शुल्क अधिनियम 1970 यथा संशोधित की अनुसूची -1 के अंतर्गत निर्धारित किए अनुसार उक्त आवेदन या मूलआदेश यथास्थिति निर्णयन प्राधिकारी के आदेश में से प्रत्येक की एक प्रतिपर रू 6.50 पैसे का न्यायालय शुल्क टिकट लगा होना चाहिए।

One copy of application or O.I.O. as the case may be, and the order of the adjournment authority shall a court fee stamp of Rs.6.50 paise as prescribed under scheduled-I item of the court fee Act, 1975 as amended.

(5) इन ओर संबंधित मामलों को नियंत्रण करने वाले नियमों की ओर भी ध्यान आकर्षित किया जाता है जो सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण (कार्याविधि) नियम, 1982 में निहित है।

Attention is invited to the rules covering these and other related matter contended in the Customs, Excise & Service Tax Appellate Tribunal (Procedure) Rules, 1982.

(6) सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण (सिस्टेट) एके प्रति अपीलो के मामले में कर्तव्यमांग (Demand) एवं दंड (Penalty) का 10% पूर्व जमा करना अनिवार्य है। हालांकि, अधिकतम पूर्व जमा 10 करोड़ रुपए है। (Section 35 F of the Central Excise Act, 1944, Section 83 & Section 86 of the Finance Act, 1994)

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सेवाकर के अंतर्गत, शामिल होगा कर्तव्य की मांग (Duty Demanded)।

- (1) खंड (Section) 11D के तहत निर्धारित राशि;
- (2) लिया गलत सेनवैट क्रेडिट की राशि;
- (3) सेनवैट क्रेडिट नियमों के नियम 6 के तहत देय राशि।

यह पूर्व जमा 'लंबित अपील' में पहले पूर्व जमा की तुलना में अपील' दाखिल करने के लिए पूर्व शर्त बना दिया गया है।


For an appeal to be filed before the CESTAT, 10% of the Duty & Penalty confirmed by the Appellate Commissioner would have to be pre-deposited, provided that the pre-deposit amount shall not exceed Rs.10 Crores. It may be noted that the pre-deposit is a mandatory condition for filing appeal before CESTAT. (Section 35 C (2A) and 35 F of the Central Excise Act, 1944, Section 83 & Section 86 of the Finance Act, 1994).

Under Central Excise and Service Tax, "Duty demanded" shall include:

- (i) amount determined under Section 11 D;
- (ii) amount of erroneous Cenvat Credit taken;
- (iii) amount payable under Rule 6 of the Cenvat Credit Rules.

(6) (i) इस आदेश के प्रति अपील प्राधिकरण के समक्ष जहाँ शुल्क अथवा शुल्क या दण्ड विवादित हो तो माँग किए गए शुल्क के 10% भुगतान पर और जहाँ केवल दण्ड विवादित हो तब दण्ड के 10% भुगतान पर की जा सकती है।

In view of above, an appeal against this order shall lie before the Tribunal on payment of 10% of the duty demanded where duty or duty and penalty are in dispute or penalty, where penalty alone is in dispute."



अपीलिय आदेश/ ORDER-IN-APPEAL

The present appeal has been filed by M/s. Rajendrakumar Prabhudas Prajapati, 21, Jay Parshwanath Society, Nagalpur, Collage, Nagalpur Highway, Mehsana – 384001 [hereinafter referred to as “the appellant”] against Order in Original No. 208/AC/DEM/MEH/ST/Rajendrakumar P. Prajapati /2022-23 dated 31.03.2023 [hereinafter referred to as “the impugned order”] passed by the Assistant Commissioner, CGST, Division - Mehsana, Commissionerate - Gandhinagar [hereinafter referred to as “the adjudicating authority”].


2. Briefly stated, the facts of the case are that the appellant were not registered under Service Tax and were holding PAN No.AKPPP9571N. As per information received from the Income Tax Department, it was observed that during the period F.Y. 2016-17, the appellant had earned substantial service income by way of providing taxable services, but had neither obtain Service Tax Registration nor paid Service Tax thereon. Accordingly, in order to seek information, letters & emails were issued to the appellant calling for the details of services provided during the period. But they didn't submit any reply. Further, the jurisdictional officers considering the services provided by the appellant as taxable determined the Service Tax liability for the F.Y. 2016-17 on the basis of value of ‘Sales of Services’ under Sales/Gross Receipts from Services (Value from ITR) and Form 26AS for the relevant period as per details below :

Sr. No.	Period (F.Y.)	Differential Taxable Value as per Income Tax Data (in Rs.)	Rate of Service Tax incl. Cess	Service Tax liability to be demanded (in Rs.)
1.	2016-17	11,23,009/-	15%	1,68,451/-

2.1 The appellant was issued Show Cause Notice No. CGST/Div/Mehsana/193/AKPPP9571N/21-22 dated 18.10.2021 (in short SCN) proposing to demand and recover Service Tax amounting to Rs.1,68,451/- under proviso to Section 73 (1) of Finance Act, 1994 along with interest under Section 75 of the Act. The SCN also proposed imposition of penalty under Section 70, Section 77(1)(a) and Section 78 of the Finance Act, 1994.

3. The SCN was adjudicated *ex-parte* vide the impugned order wherein :

- Service Tax demand of Rs.1,68,451/- was confirmed under Section 73(1) of the Finance Act, 1994 alongwith interest under Section 75 of the Finance Act, 1994.



- Penalty of Rs.10,000/- was imposed under Section 77(1)(a) of the Finance Act, 1994.
- Penalty of Rs.20,000/- was imposed under Section 70 of the Finance Act, 1994 read with Rule 7 of the Service Tax Rules 1994.
- Penalty of Rs.1,68,451/- was imposed under Section 78 of the Finance Act, 1994 with option for reduced penalty in terms of clause (ii).

4. It is observed from the records that the present appeal was filed by the appellant on 22.11.2023 against the impugned order dated 31.03.2023, which was reportedly received by the appellant on 24.08.2023.


4.1 It is also observed that the Appeals preferred before the Commissioner (Appeals) are governed by the provisions of Section 85 of the Finance Act, 1994. The relevant part of the said section is reproduced below :

“(3A) An appeal shall be presented within two months from the date of receipt of the decision or order of such adjudicating authority, made on and after the Finance Bill, 2012 received the assent of the President, relating to service tax, interest or penalty under this Chapter:

Provided that the Commissioner of Central Excise (Appeals) may, if he is satisfied that the appellant was prevented by sufficient cause from presenting the appeal within the aforesaid period of two months, allow it to be presented within a further period of one month.”

4.2 As per the above legal provisions, the period of two months for filing appeal before the Commissioner (Appeals) for the instant appeal ends on 24.10.2023 and further period of one month, within which the Commissioner (Appeals) is empowered to condone the delay upon being satisfied with the sufficient reasons shown by the appellant, ends on 24.11.2023. This appeal was filed on 22.11.2023, i.e after a delay of 28 days from the stipulated date of filing appeal, and is within the period of one month that can be condoned.

4.3 In their application for Condonation of delay in filing the appeal, they submitted that they had informed their tax consultant for further course of action. However, their tax consultant was suffering from health issue for a considerable period of time. Realizing the time limit to file appeal is already expired, they immediately changed their consultant and discussing our case and filing appeal with new consultant took 28 days delay in filing the instant appeal. These reasons of delay



were also explained by them during the course of personal hearing, the grounds of delay cited and explained by the appellant appeared to be genuine, cogent and convincing. Considering the submissions and explanations made during personal hearing, the delay in filing appeal was condoned in terms of proviso to Section 85 (3A) of the Finance Act, 1994.

5. Aggrieved by the impugned order, the appellant has preferred this appeal on following grounds:

- The appellant is an individual engaged in the business of Transportation of sands and bricks. The appellant is a small transporter, owing a single vehicle for delivery of materials.
- They further submitted that they are transport sands and bricks by road without issuing consignment note and do not operate as a Goods Transport Agency (GTA). According to Section 66D(p)(i) of the Finance Act, 1994, their services fall under negative list which specifies:

(p) services by way of transportation of goods-

(i) by road except the services of-

(A) a goods transportation agency; or


(B) a courier agency;

- They further requested to consider the same and drop the impugned order.

6. Hearing in the case was held on 20.05.2024 virtually. Shri Anil Gupta, Chartered Accountant, appeared for hearing on behalf of the appellant. He informed that the client is doing normal transportation of sand and brick through his own tractor. He is not GTA. He is covered under negative list. Hence not liable to service tax. Further he requested for 03 days time to submit copy of ITR, Sample Invoices, RC etc.

6.1 Subsequently, the appellant submitted additional submission dated 22.05.2024 along with ITR, Sample Invoices and Certificate of Registration of Transport Vehicle.

7. I have carefully gone through the facts of the case available on record, grounds of appeal in the appeal memorandum, oral submissions made during personal hearing



and additional submission, the impugned order passed by the adjudicating authority and other case records. The issue before me for decision in the present appeal is whether the demand of service tax amounting to Rs.1,68,451/- confirmed under proviso to Section 73 (1) of Finance Act, 1994 alongwith interest, and penalties vide the impugned order passed by the adjudicating authority in the facts and circumstances of the case is legal and proper or otherwise. The demand pertains to the period of F.Y. 2016-17.

8. I find that the SCN was issued on the basis of third party data without any verification and the impugned order has been decided *ex-parte*.

9. I find that the appellant claimed that they were local Transporter & owner of the transport vehicle and had received freight of Rs.11,23,009/- on transportation of sand & bricks by road during the period of F.Y.2016-17. In support of their claim, they submitted the registration of certificate of transport vehicle (Tractor, Tailor) and sample invoices, ITR. They strongly contended that their services cannot be considered as 'Goods Transport agency Service' and merit exemption from Service Tax in terms of Section 66D of the Finance Act, 1994. The relevant portion of the Section is reproduced as below:

Section 66D: The negative list shall comprise of the following services, namely:

...

(p) services by way of transportation of goods

(i) by road except the services of


(A) a goods transportation agency; or

(B) a courier agency;

.....

10. Examining the above provisions with the facts of the case, I find that the services provided by the appellant by way of transportation of Goods by road without issuing any consignment note, merits exemption from leviability of Service tax in terms of Section 66D(p)(i) of the Finance Act, 1994.


11. In view of above discussions & findings, I am of the considered view that the income of the appellant of Rs.11,23,009/- during the relevant period is not to be considered as a taxable value under Service Tax. Therefore, the demand of Service



Tax amounting to Rs.1,68,451/- confirmed vide the impugned order fails to sustain on merit. As the demand of service tax fails to sustain, question of interest and penalty does not arise.

12. Accordingly, the impugned order is set aside and the appeal filed by the appellant is allowed.

13. अपील कर्ता द्वारा दर्ज की गई अपील का निपटारा उपरोक्त तरीके से किया जाता है।
The appeal filed by the appellant stands disposed of in above terms.




ज्ञानचंद जैन

आयुक्त (अपील्स)

Dated: 30th May, 2024

सत्यापित/Attested :



रेखा नायर

अधीक्षक (अपील्स)

सी जी एस टी, अहमदाबाद

By REGD/SPEED POST A/D



To,

M/s. Rajendrakumar Prabhudas Prajapati,
21, Jay Parshwanath Society, Nagalpur,
Collage, Nagalpur Highway,
Mehsana – 384001.

Copy to :

1. The Principal Chief Commissioner, CGST and Central Excise, Ahmedabad.
2. The Commissioner, CGST and Central Excise, Gandhinagar.
3. The Assistant Commissioner, CGST & CEX, Mehsana Division, Gandhinagar Commissionerate.
4. The Superintendent (Systems), CGST, Appeals, Ahmedabad, for publication of OIA on website.
- ✓ 5. Guard file.
6. PA File.